



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 193 राँची, गुरुवार,

8 मार्च, 2018 (ई०)

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

#### अधिसूचना

28 फरवरी 2018

संख्या : 03 नि०न०-09/2017 रा०नि०आ० : 286 — नगरपालिका निर्वाचन, 2018 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)—सह—उपायुक्त, राँची के पत्रांक 1728(ii)/दिनांक 01 जुलाई 2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राँची जिलान्तर्गत जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना सं० 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 निर्गत किया गया है।

पुनः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)—सह— उपायुक्त, राँची के पत्रांक 143(ii)/दिनांक 23 फरवरी 2018 द्वारा श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के स्थान पर श्रीमती गीता चौबे, उप निर्वाचन पदाधिकारी, राँची का संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्रीमती गीता चौबे, उप निर्वाचन पदाधिकारी, राँची को राँची नगर निगम एवं बुण्डू नगर पंचायत हेतु जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया जाता है :-

क्रम सं०	जिला का नाम	नगरपालिका का नाम	पूर्व में नाम निर्दिष्ट जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में नाम निर्दिष्ट जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का नाम एवं पदनाम
1	राँची	राँची नगर निगम एवं बुण्डू नगर पंचायत	श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), राँची	श्रीमती गीता चौबे, उप निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), राँची

- एतद द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 743 दिनांक 24 अगस्त 2017 को संशोधित समझा जाए एवं उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
- उपरोक्त प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----